

**Sub: Newspaper Publication of Notice to Shareholders for 36<sup>th</sup> AGM, Remote e-Voting and Book Closure information.**

Please find enclosed the copies of the Newspaper Publication of Notice to Shareholders for 36<sup>th</sup> AGM, Remote e-Voting and Book Closure information, published in the newspapers on 02.09.2024 in 'Indian Express and Financial Express', in English language and in 'Jansatta' in Hindi language, in all India edition.

The above mentioned newspaper clippings are also available on the Company's website at [www.concorindia.co.in](http://www.concorindia.co.in).

This is for your information and record.

यह आपकी जानकारी एवं रिकार्ड के लिए है ।

धन्यवाद |



भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड  
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.  
(भारत सरकार का एक नवरत्न उपक्रम)  
(A NAVRATNA UNDERTAKING OF GOVT. OF INDIA)  
पंजीकृत कार्यालय एवं निवेशक संबंध केंद्र: कॉन्कॉर भवन, ए-3, पटवु रोड, अन्कोटा होरिण्टल के सामने, नई दिल्ली - 110078  
सीआईएन: L63011DL1988GO030915, ई-मेल: investorrelations@concorindia.com,  
फोन नं. 4122 2500/600/700, वेबसाइट: http://www.concorindia.co.in



## छत्तीसवीं (36वीं) वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना

- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी सामान्य परिपत्रों और भारतीय प्रतिनूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों की छत्तीसवीं (36वीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 25.09.2024 को अपराह्न 03.00 बजे मा.मा.स. आयोजित की जाएगी। उक्त बैठक के नोटिस में बताए गए व्यवसायों को वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो विजुअल मोड (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से, आयोजन स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना निष्पादित किया जाएगा।
- प्रारंभिक परिपत्रों के अनुसार, 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ 36वीं एजीएम की सूचना (व्याख्यात्मक विवरण सहित) 23.08.2024 को समाप्त तक के उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज दी गई है, जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत थी। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट [www.concorindia.co.in](http://www.concorindia.co.in) और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) और [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) पर उपलब्ध है।
- शेयरधारकों को केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 36वीं एजीएम में शामिल होने और भाग लेने का अवसर मिलेगा और एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से और एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम के नोटिस में निर्धारित कार्यों की मर्यादा पर अपना वोट डालेंगे। एजीएम में भाग लेने हेतु, डीमैटेरियलाइज्ड मोड, भौतिक (फिजिकल) मोड में शेयर रखने वाले और उन शेयरधारकों जिनकी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, रिमोट ई-वोटिंग के बारे में विस्तृत निर्देश एजीएम के नोटिस में प्रदान किए गए हैं।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 का नियम 20 और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 का विनियमन 44 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को नेशनल शिफ्टरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से रिमोट लोकेशन (रिमोट ई-वोटिंग) से एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने की सुविधा प्रदान कर रही है। इसलिए एजीएम का कार्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से किया जा सकता है और भौतिक रूप में या डीमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
  - 36वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित कार्य को इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है;
  - रिमोट ई-वोटिंग रनिवार, 21.09.2024 को पूर्वाह्न 09.00 बजे शुरू होगी;
  - रिमोट ई-वोटिंग गंगलवार, 24.09.2024 को अपराह्न 05.00 बजे समाप्त होगी;
  - रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि बुधवार, 18.09.2024 है। कोई भी व्यक्ति, जो नोटिस भेजने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात् 18.09.2024 को शेयर रखता है, वह [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) या [concor@beatafinancial.com](mailto:concor@beatafinancial.com) पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यद्यपि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वह वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है;
  - वोट देने के पात्र सदस्य स्थान दें कि:
    - रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा 24.09.2024 को अपराह्न 05.00 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी;
    - एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी;
    - जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट डालने के पात्र नहीं होंगे; और
    - यह व्यक्ति ही एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का पात्र होगा जिसका नाम कट-ऑफ तिथि पर डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर या सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है।
  - किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) के अंतर्गत हेल्प सेक्शन में उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) देख सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे (वरिष्ठ प्रबंधक), एनएसडीएल, चौथी मंजिल, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बायपैस मार्ग, लोडर परेड, मुंबई - 400013 से ईमेल - [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) व फोन: 022-48867000, 022-24997000 पर संपर्क कर सकते हैं।
- जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं और जिन्होंने अपनी ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर या बैंक विवरण (कंपनी द्वारा जब कभी घोषित किए गए लाभों के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्राप्त करने हेतु) को अद्यतन नहीं किया है, उनसे फोनियो नंबर, शेयरधारक (शेयरधारकों) का नाम, पता, बैंक विवरण का उल्लेख करते हुए, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन (आगे और पीछे) की गई प्रति, पैन कार्ड की स्वप्रामाणित स्कैन प्रति, रक किया गया चेक, पता प्रमाण (आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट) आदि सौलन करते हुए एक हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र के साथ ई-मेल [concor@beatafinancial.com](mailto:concor@beatafinancial.com) पर और इसकी एक प्रति [investorrelations@concorindia.com](mailto:investorrelations@concorindia.com) पर भेजकर इसे अद्यतन कराने का अनुरोध किया जाता है।  
डीमैटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ अपने ई-मेल पते, मोबाइल नंबर और बैंक विवरण (कंपनी द्वारा घोषित लाभों, जब भी, को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्राप्त करने हेतु) पंजीकृत करें।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित इसके अंतर्गत लागू नियमों और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार एजीएम और 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए 5/- रुपये अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 2.50 रुपये के अंतिम लाभांश, यदि वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित किया जाता है, हेतु पात्र शेयरधारकों को निर्धारित करने के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बही 19.09.2024 से 25.09.2024 (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेगी। इस अंतिम लाभांश को 24.10.2024 से पहले उन सदस्यों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में होंगे।
- वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों के हाथों में लाभांश आय कर योग्य है। तदनुसार, कंपनी को लाभांश का भुगतान करते समय आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दरों पर चोट पर कर (टीडीएस) काटना अपेक्षित होगा। टीडीएस आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (पार्टिसिपेंट्स) या भौतिक शेयरों के लिए कंपनी/आरएंडटीए के साथ ऊपर उल्लिखित ई-मेल आईडी पर आयकर अधिनियम, 1961 आदि के अनुसार फार्म 15जी/15एच/अन्य छूट/कम कटौती दस्तावेज जमा करें और अपनी आवासीय स्थिति, पैन, श्रेणी को अद्यतन करें। यदि शेयरधारक का बैंक पैच न उपलब्ध नहीं है, तो लागू प्रावधानों के अनुसार 20% की दर से टीडीएस काटना अपेक्षित है।

कृते भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड  
हस्ता./-  
(हरीश चन्दा)  
कार्यपालक निदेशक (वित्त) एवं कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 31.08.2024



## भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.

(भारत सरकार का नववर्तन उपक्रम)

(A NAVRATNA UNDERTAKING OF GOVT. OF INDIA)

Regd. Office & Investors Relation Centre: CONCOR Bhawan, C-3, Mathura Road, Opp. Apollo Hospital, New Delhi - 110076  
CIN: L63011DL1988GOI030915, e-mail: investorrelations@concorindia.com,  
Tel. Nos.: 4122 2500/600/700, Website: http://www.concorindia.co.in



### NOTICE OF 36<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

- 1) Notice is hereby given that in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circulars issued in this regard by Ministry of Corporate Affairs and other applicable circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), the thirty sixth (36<sup>th</sup>) Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on **Wednesday, 25.09.2024 at 03.00 p.m. IST** to transact the businesses set forth in the Notice of the said meeting through Video Conference/ Other Audio Visual Modes (VC/OAVM), without physical presence of members at venue.
- 2) In compliance of the relevant circulars, the notice of 36<sup>th</sup> AGM alongwith explanatory statement and the Annual Report for the year ended 31.03.2024 has been dispatched in electronic mode to the members as at the close of 23.08.2024, whose e-mail IDs were registered with the Company or Depository Participant(s). The notice of AGM and Annual Report are available on the Company's website [www.concorindia.co.in](http://www.concorindia.co.in) and on the website of Stock Exchanges ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)).
- 3) Shareholders will have an opportunity to join and participate in 36<sup>th</sup> AGM through VC/ OAVM facility only and cast their vote on the items of business as set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting prior to the AGM and through electronic voting system during the AGM. The detailed instructions for participation in the AGM, remote e-voting for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for those shareholders whose e-mail IDs are not registered, have been provided in the notice of AGM.
- 4) Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members the facility to cast their votes electronically on all the resolutions set out in the Notice of AGM from a remote location ("Remote e-voting") through National Securities Depository Limited (NSDL). The business of AGM may therefore be transacted through e-Voting services of NSDL and the members holding shares either in physical form or dematerialized form may cast their vote electronically. All the members are informed that:
  - i. The business set forth in the Notice of the 36<sup>th</sup> AGM may be transacted through voting by electronic means;
  - ii. The remote e-voting shall commence on Saturday, 21.09.2024 at 09.00 AM;
  - iii. The remote e-voting shall end on Tuesday, 24.09.2024 at 05.00 PM;
  - iv. The cut-off date for determining the eligibility for remote e-voting or at the AGM is Wednesday, 18.09.2024. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 18.09.2024 may obtain login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [concor@beetafinancial.com](mailto:concor@beetafinancial.com). However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote;
  - v. Members eligible to vote may note that:
    - (a) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL beyond 05.00 PM on 24.09.2024 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
    - (b) The facility for voting through electronic voting system will be made available at the AGM;
    - (c) The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again; and
    - (d) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM.
  - vi. In case of any queries, members may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) under help section or may contact Ms. Pallavi Mhatre (Sr. Manager), NSDL, 4<sup>th</sup> Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, Email: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in), Tel: 022-48867000 or 022-24997000.
- 5) Shareholders holding shares in physical mode and who have not updated their e-mail IDs, mobile numbers or bank details (for receiving electronic payments of dividend, as & when declared by the Company) are requested to update the same by sending an e-mail at [concor@beetafinancial.com](mailto:concor@beetafinancial.com) with copy marked to [investorrelations@concorindia.com](mailto:investorrelations@concorindia.com) alongwith a signed request letter mentioning Folio No., Name of shareholder(s), address, bank details, scanned copy of shares certificate (front & back), self-attested scanned copy of PAN card, cancelled cheque, address proof (Aadhaar Card/ Driving License/ Passport) etc.  
Shareholders holding shares in dematerialized mode, are requested to register their e-mail addresses, mobile numbers and bank details (for receiving electronic payments of dividend, as & when declared by the Company) with their Depository Participants.
- 6) Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable Rules thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 19.09.2024 to 25.09.2024 (both days inclusive) for AGM and to determine the shareholders entitled to final dividend of Rs. 2.50 per equity share of the face value of Rs. 5/- each for the year ended 31.03.2024, if approved at the Annual General Meeting. This final dividend will be paid before 24.10.2024 to those Members whose names appear in the Register of Members of the Company.
- 7) Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of shareholders w.e.f. April 1, 2020. Accordingly, the Company will be required to deduct tax at source (TDS) at the time of making payment of dividend, at the rates prescribed in the Income Tax Act, 1961. To enable compliance with the TDS requirements, shareholders are requested to submit Form 15G/ 15H/ Other exemption/ lower deduction documents and update their residential status, PAN, category as per the Income Tax Act, 1961 etc. with their Depository Participant(s) or for physical shares with the Company/ R&TA at the e-mail IDs mentioned above. If valid PAN of the shareholder is not available, TDS is required to be deducted at the rate of 20% as per applicable provisions.

For Container Corporation of India Ltd.  
sd/-  
(Harish Chandra)  
ED (Finance) & Company Secretary

Place: New Delhi  
Date: 31.08.2024